


# Sarpi

GARGI BHATTACHARYA



COPYRIGHTED MATERIAL

সর্পি

\*\*\*\*

গার্গী ভট্টাচার্য

“As the lotus does not touch the water  
so do not let the world enter your heart..  
Being busy in the world is no trouble,  
unless you are troubled being busy,  
then the only trouble is the trouble..


Ocean does not complain about the dance of  
ten million waves!so don't be concerned with  
the rise and fall of thoughts..

Keeping an old troublesome habit  
is like keeping poisonous snakes in your  
arms.Now is the time to hold this snake and  
throw it out..

Bad moods are either past or imaginary  
future,  
in the Present there are no moods at all..  
Moods belong to the circumstance, to the  
past;face the Sun and there will be no shadow  
of the moods..

The world is like a tail of dog, it's nature is to  
curl.  
The best you can do is stay Quiet  
and not let anything bother you..  
Visitors will come and go, don't interfere with  
these waves..  
Just be silent..”

– H.W.L. Poonja, – Papaji; The Truth Is



**Batuk Bhairav**

**Images; Internet, credit goes to  
them.**

আমার মা মহাবিদ্যা ঠৈরবী না হলে আমি যখন তাঁর গর্ভে এসেছি তখন থেকেই আমাকে কালা জাদু করে করে মারার চেষ্টা করছে শত্রুরা । অন্য কেউ হলে আমি মরেই যেতাম ।

আমার ছেড় বৎসর বয়সেও কঠিন ব্যামো হয় যাতে প্রায় মরেই যাচ্ছিলাম । লাস্ট একটি ইঞ্জেকশান দিয়ে জীবিত করা হয় আর এটাও হেভি ম্যাঙ্গিকের জন্য ।

এখনও ডার্ক ম্যাঙ্গিক চলেছে ।

আজকাল বিদেশের লোক ভগবান মানেনা কিষ্টু এখানে শয়তানের কোর্স করাবার জন্য রীতিমতন মোটা টাকা নিয়ে ক্লাস করানো হয় আর করায় হাই প্রিন্টরা । জেফ্ বেছোজ ওর প্রিন্সটোনে মানে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে ঐই কোর্স চালু করার প্রচেষ্টায় ছিলো ।

কি করে লোকের ক্লতি করতে হয় তা শেখানো হয় এইসব কোর্সে। রক্ষা করার নামে। এরা সৈনিক নয়। অথচ ভগবানের নাম জপতপ করলে নিজেকে রক্ষা করা সম্ভব।

ভগবানের কাছে যেতে হলে কোনো ধর্ম বা গুরুকে মানতে হবে এমন নয়। ডাইরেক্ট যোগাযোগ করো। ফল পাবে।

মুসলিমগণ নাকি হজ্জ করতে গেলে উদ্দিনঃ মক্কা মদিনাতে বলা হয় যে দেশে ফিরে কাফের গণকে অত্যাচার করবে তাহলে পরের বার যখন হজ্জ করতে আসবে তখন তুমি আরো পুণ্য হবে ও সোজা মরণের পরে জন্মও এ উত্তীর্ণ হবে। ওদের ধর্মে মোক্কের জিনিসটা উত্তীয়ে আজকাল ঐ জাজমেন্ট ডে ও জন্মও ও জাহান্নাম এইসব করে করে মগজ্জ ধোলাই করা হয় ও লোককে অত্যাচার করা ও টাকা নেওয়া এইসবের জন্য এই জায়গাতে জিনিসটা দাঁড়িয়েছে গিয়ে। তাই এবার আয়াতোল্লা

এক্সপোজড্ হবে ও সেখানে সেনা ঠখান হবে  
এবং তাকে অত্যন্ত নির্মম ভাবে হত্যা করা হবে  
। কাশেম সোলেইমানির হত্যাকারি যে অদতে  
সে-ই আমেরিকা বা ডোনাল্ড ট্রাম্প নন তা  
সম্মুখে চলে আসবে ও ইরানের বরণীয়  
সেনাধ্যক্ষ কে এইভাবে নিষ্ঠুর উপায়ে মারার  
জন্য ইরানের জনতা ওকে অত্যন্ত কঠোর শাস্তি  
দেবে । পাবলিক যখন ক্লেপে যায় তখন আর  
কিছুই করার থাকে না । শাহ্ এর মত ভালো  
নরেশকে যদি ওরা তাড়িয়ে দিতে পারে  
শয়তানি শিহির দিয়ে তাহলে আন্লাহ্-র পক্ষে  
ওদের মতন শয়তানকে তাড়াতে কতক্ষণ ?

আসলে ডগবান/ঈশ্বর/আন্লাহ্/গড এইসব  
শব্দ খুবই শক্তিশালী । খেলার ছলেও যদি একে  
মিসইউজ্ করো তাহলে শাস্তি পেতে হয় আর  
তা এবারে দেখা যাবে । আর যদি ভক্তিভরে  
এই নাম স্মরণ করো তাহলে তারও ফল  
মিলবে ।



রুদ্ধ অবতার ঋতুধজ্ঞ ও রুদ্ধাণী সর্পি সামনের  
জন্ম থেকে পর পর ৭ বার জন্ম নেবেন ও  
দুনিয়াকে দেখিয়ে দেবেন প্রেমের সংজ্ঞা কি ।  
আমি ও সোলেইমানি যা দেখিয়ে গেলাম তা  
ওনারা এগিয়ে নিয়ে যাবেন আরো । ওনাদের  
জন্ম হবে খুব অসমান দুই সংসারে কিন্তু সমস্ত  
বাধাকে অতিক্রম করে প্রতি জনমে ওনারা  
একসাথে মিলে জগৎকে দেখাবেন কি করে  
ভালোবাসতে হয় ও মায়ামমতা কাকে বলে ।

ওনারা টুইন ফ্লেম ও ওনাদের টুইন ফ্লেম  
জার্নি সামনের জন্ম থেকে শুরু হয়ে যাবে ।

এদিকে কুবেরজী আমার পতি পরমেশ্বর  
নকুলকে ত্যাগ করবেন তার দেহত্যাগের পরে  
কারণ এই নকুলের ইগোর জন্য এই জড়  
জগতে --পুরো অলকাপুরীতে সমস্যা হয়ে  
চলেছে । সুক্স ভাইব্রেশানে সমস্যা হচ্ছে ।

তাই নকুল পদে নেমে যাবে । স্ত্রী আধ্যাত্মিক উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও সে নিজে নেমে যাবে কারণ স্ত্রীকে যথেষ্ট গুরুত্ব না দিয়ে সে নিজের অহং-কে পুষ্ট দিয়ে চলেছে ও নিজের মেন্টার কুবেরজীকে গুরুত্ব না দিয়ে নিজের দম্ভকে বেশি প্রাধান্য দিয়ে চলেছে তাই তার পতন হবে । কিন্তু শ্রী রমণ মহর্ষি যেহেতু তার গুরু তাই ততটা নিশ্চিন্ত হবেনা তার ইগো ।

পাওয়ারফুল অ্যাসেসটর নাহলে এরকমই হয় স্পিরিচুয়াল দুনিয়াতে । যা এখানে দেখা যায় তা ইলিউশান । আদতে সবই কন্ট্রোল হয় স্পিরিচুয়াল জগৎ থেকেই । বেশি শয়তানি করলে অ্যাসেসটরগণ কার্স অবধি করে দিতে পারেন । কারণ এখানকার কাজের ফলাফল তাঁদেরও বইতে হয় । পুরো কসমস একসাথে যুক্ত । একই শক্তি বইছে সেখানে ।



ইরানের সাবা অর্থাৎ নিলোফারের দ্বিদি ও জেহনাবের মাতাজী আমাকে আবার শিহির করছে কালকের বই বার হবার পরে যাতে আমাকে এখানে সরকার ধরে ঊগ্রপন্থার নিয়মে কারণ আমি আয়াতোল্লার বিরুদ্ধে ঐসব লিখেছি তাই যাতে ওরা আমাকে ধরে ঠ্যাঙায় ,আর বলে তুই এসব কোথা থেকে জানলি কিন্তু ওটা এবার ব্যাকফায়ার করে ওর বোনকে ধরে ওরা এমন মারবে যে পুছো মাং আর সে হাড়াড ডেঙে পড়ে থাকবে ও বেড সোর হয়ে কঙ্কালসার হয়ে যাবে আর এই নিলোফার সেক্স স্লেভ আর রেজা আবিদের সাথে সহবাস করতে প্রায়ই কুইল্ল্যাডে যায় নিজের বাচ্চাদের সহযোগীর কাছে রেখে ও সেক্স করাকে বলে রাইডিং করা । এরজন্য ও সাবার মতন গহনা নেয়না বরং অজি ডলারে কামিয়ে নেয় কিন্তু ওকে বেশ্যা বলে কার ঘাড়ে কটা মাথা রে? ওরই বোনঝি ফাতিমা যে আয়াতোল্লার নাজায়িজ সন্তান সে আন্তর্জালে

বসে বসে লম্বা লম্বা সততার বাণী দেয় যে  
ওদের মামুজান অর্থাৎ সোলেইমানি যাকে ওরা  
বাবা সাজিয়েছিলো সে নাকি ওদের বেজায়  
সততা শিখিয়ে গিয়েছিলো আর নিজের নাম  
ব্যবহার করতে বারণ করে গিয়েছিলো তবুও  
ওদের বড় দিদি নাগিস তার নাম উঁউজ করে  
ইলেক্‌শানে দাঁড় হচ্ছে । এইসব ছাইপাশ ।

যার জন্ম পাপ থেকে ও নিজের জিসম বিক্রি  
করে খায় তার মুখে সততার এমন চমৎকার  
বাণী ও উদাহরণ একমাত্র মুসলিম রেজিমেই  
সম্ভব । **এদের ধর্মে সবই হারাম অথচ**  
**এরা এক একজন এক একটি**  
**জাজ্বল্যমান হারামি বলাই বাহুল্য ।**

করণ খাপারকে তো মেরে ফেলেছে কিন্তু ওর ইন্ডিয়া টুডের বেশ কিছু সাংবাদিক বসে বসে শয়তানি শক্তি জাগায় ও গোদি ম্বিডিয়াতে পরিণত হয়েছে । এর এক পাত্রী এক মাধ্যমিক ফেলের কথা আগেই লিখেছি যে শিশুদের সাথে সেক্স করে নেটফ্লিক্স এর পিহ সিনেমার মতন সিসিটিভিতে শ্যুট করে নিয়ে ডার্ক ওয়েবে তোলে কারণ ওর হোংকা দেহের বিচিত্র যৌন লীলা বিকৃত কামনার শিকার যারা সেসব মানুষের মনে কিব্ আনে ।


এইভাবে টাকা রোজগার করা এই মেয়ে ও তার কিছু সহকর্মীর জন্য আজ ইন্ডিয়া টুডের সর্বনাশ হবে কারণ এরা কালা জাদু করে করে ইন্ডিয়ার নিউক হওয়া চেপে দিচ্ছে । মহারাষ্ট্রে সব চেয়ে বেশি নিউক্লিয়ার রেডিয়েশান হয়েছে সব জায়গার মধ্যে কারণ ওখানেই আর এস এস হেড কোয়ার্টার । কিন্তু সেই খবর চেপে দিয়ে মানুষকে প্রচণ্ড ভয়াবহতার দিকে

ঠেলে দিয়েছে এই সংবাদ সংস্থা যার জন্য  
ইন্ডিয়া টুডে সমগ্র সংস্থা ব্যাক রাপ্ট হয়ে যাবে  
এবং সমস্ত জার্নো ও সম্পাদকেরা প্রবল  
রেডিয়েশানের কবলে পড়বে যা জগৎবাসী  
দেখবে , পুরো সায়েন্স বদলে যাবে । লোকে  
দেখবে যে এরা যদিও বা ভারত থেকে  
পালিয়েও যায় তবুও নিউকের আঘাতে  
ক্লতবিক্লত অথচ সরল মানুষদের কিছু হয়নি  
এমন কি করে হয় ? ডু নিউকস্ হ্যাড  
কনশাসনেস ?

আসলে ঈশ্বরের চমৎকার !!!

বগলামুখী তব্ব শত্রুকে প্যারালাইজ করে দিতে  
সক্ষম । তাই দিয়েই দেবতারা নিউককে এমন  
প্যারালাইজ করে দিয়েছেন যে কেবল  
শয়তানদের দেহেই আঘাত হানবে এগুলি আর  
নিরীহ , সরল মানুষ বেঁচে বর্তে থাকবে ।


কারণ যার কেউ নেই তার ভগবান আছেন ।  
আর নিউকের হাফ লাইফ কেটে গেলে ঐ  
বগলামুখী তল্ল শক্তি সরিয়ে দেওয়া হবে কারণ  
এই মহাজগতে একমাত্র মোক্ষ ব্যতীত কোনো  
কিছুই আর পার্মানেট নয় ।







তারা মহাবিদ্যা



समाप्त